

Teaching materials5

SUBJECT -Hindi


SESSION-2020-21

CLASS-2


TOPIC: पाठ-3 बहादुर प्रिया

Day. 1

प्रिया अपनी मम्मी-पापा के साथ उड़ीसा के एक छोटे से शहर में रहती थी। महज 8 वर्ष की उम्र में उसने एक अत्यंत साहसिक कारनामे को अंजाम दिया था। अपनी हिम्मत और सजगता के लिए उसे राष्ट्रपति से बहादुरी पुरस्कार भी मिला था। आइए जाने उस घटना के बारे में जिसमें प्रिया की बहादुरी ने उसे यह पुरस्कार दिलाया।



गर्मी की एक रात थी। प्रिया के मम्मी पापा अपने अपने दफ्तर से आ चुके थे और वहाँ के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रिया ने भी अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। थोड़ी ही देर में तीनों खाने की मेज पर थे। प्रिया ने अपना खाना जल्दी खत्म कर उन लोगों को 'शुभरात्रि' कहा और अपने कमरे में जाकर सो गई।



___ आधी रात का समय था। अचानक प्रिया ने कुछ शोर और चीखें सुनी। वह दौड़कर मम्मी पापा के कमरे के पास आई और कमरे में झाँक कर देखा। वहां दिल दहला देने वाला दृश्य था। तीन चोर उन्हें डरा धमकाकर पैसे एवं जेवरात की मांग कर रहे थे। ,



प्रिया मम्मी- पापा की मदद करना चाहती थी। वह जानती थी कि वह उन बदमाशों से लड़ने के लिए बहुत छोटी है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह तुरंत मिर्ची पाउडर लेने के लिए रसोई घर में पहुँच गई। उसके हाथ दो डिब्बे लग गए, एक हल्दी का और दूसरा मिर्ची का। क्योंकि वहाँ अंधेरा था, उसे यह समझ नहीं आया कि कौन -सा डिब्बा मिर्ची का है। अगर वह रसोई घर में रोशनी करती, तो चोर उसे देख लेते! यह सोचकर उसने दोनों डिब्बों के मसालों को आपस में मिला दिया और उन्हें लेकर कमरे में घुस गई। बड़ी हिम्मत से उसने उन मसालों को बदमाशों की आँखों में झाँक दिया। चोरों के हाथों से सरिरे

छूट गए और वह दर्द से कराहने लगे। प्रिया ने जल्दी से अपने पापा के मोबाइल फोन से पुलिस को बुलाया, पर पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गए।

इस प्रकार प्रिया के मम्मी -पापा की जान बच गई। अब उसकी कॉलोनी के सब लोग उसे 'झाँसी की रानी' कह कर बुलाते हैं।

कठिन शब्द

सजगता
राष्ट्रपति
बहादुरी
पुरस्कार
शुभ रात्रि
डिब्बा
कॉलोनी
दफ्तर
दृश्य
मिर्ची

शब्दार्थ

साहसिक - वीरता पूर्ण

सजगता-सावधानी/होशियारी

कारनामा-कार्य

अंजाम दिया:-पूरा किया

बहादुरी:-वीरता

दफ्तर:-ऑफिस

कराहना-दर्द से रोना- चिल्लाना

शुभ रात्रि-रात को किया जाने वाला नमस्कार

महज-केवल

Day-2-

विलोम शब्द

शहर-गाँव

रात-दिन

अँधेरा-उजाला

पास-दूर

समानार्थी शब्द

हाथ-कर, हस्त

आँख:-नयन, नेत्र

रात-निशा, रात्रि

दिन-दिवस, वार

Day 3

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए

प्रश्न क-प्रिया साहसिक कारनामे को अंजाम देने के समय कितने वर्ष की थी?

उत्तर प्रिया साहसिक कारनामे को अंजाम देने के समय महज 8 वर्ष की थी।

प्रश्न ख-प्रिया क्या लेने रसोईघर गई?

उत्तर:-प्रिया मिर्ची पाउडर लेने के लिए रसोईघर गई।

प्रश्न ग- किस के आने से पहले चोर भाग गए?

उत्तर:-पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए।

Day4

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

प्रश्न अपने अपने दफ्तर से आकर प्रिया के मम्मी पापा किस विषय पर बातें कर रहे थे?

उत्तर अपने अपने दफ्तर से आकर प्रिया के मम्मी पापा वहाँ के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे।

प्रश्न प्रिया- मम्मी पापा को क्या कहकर अपने कमरे में सोने गई?

उत्तर:-प्रिया मम्मी -पापा को 'शुभरात्रि 'कह कर अपने कमरे में सोने गई।

प्रश्न -आधी रात में प्रिया ने क्या सुना?

उत्तर आधी रात में प्रिया ने कुछ शोर और चीखें सुनी।

प्रश्न -प्रिया ने फोन करके किसे बुलाया?

उत्तर प्रिया ने फोन करके पुलिस को बुलाया।

प्रश्न- प्रिया की कॉलोनी में सब लोग प्रिया को क्या कह कर बुलाते हैं?

उत्तर प्रिया की कॉलोनी में सब लोग प्रिया को 'झाँसी की रानी' कह कर बुलाते हैं।

Day 5

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए-

(क प्रिया को बहादुरी पुरस्कार किसने और क्यों दिया था?)

उत्तर प्रिया को बहादुरी पुरस्कार उसकी हिम्मत और सजगता के लिए राष्ट्रपति ने दिया था।

प्रश्न- प्रिया ने दिल दहला देने वाला कौन सा दृश्य देखा?

उत्तर प्रिया ने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा कि तीन चोर उसके माता-पिता को डरा -धमकाकर पैसे एवं जेवरात की माँग कर रहे थे।

प्रश्न- प्रिया ने क्या योजना बनाई?

उत्तर- प्रिया ने चोरों की आँखों में मिर्ची पाउडर डालने की योजना बनाई।